



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 ज्येष्ठ 1932 (श10)  
(सं0 पटना 379) पटना, बुधवार, 16 जून 2010

मुख्य अभियंता कार्यालय

ग्रामीण कार्य विभाग, भागलपुर (मुख्यालय, पटना)

आदेश

22 दिसम्बर 2009

सं0 2072—जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष अनुकम्पा समिति बाँका के ज्ञापांक 01 (प्रा०)/स्था० दिनांक 29 जून 2009 द्वारा श्री साजूराम, पुत्र- स्व० जोतिन राम भूतपूर्व अनुसेवक ग्रा० कार्य विभाग, कार्य प्र०-2 बाँका को वर्ग '4' (चार) के पद पर नियुक्त करने की अनुशंसा प्राप्त है। अतः जलसंसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 124/सी०, दिनांक 04 जून 2002, पत्रांक 1337, दिनांक 21 मार्च 2003 एवं पत्रांक 117, दिनांक 07 मई 2003 के आलोक में श्री साजूराम को वर्ग '4' (चार) आदेशपाल (अनुसेवक) के पद पर वेतनमान रु0 2550-55-2660-60-3200 एवं समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते सहित नियुक्ति की जाती है। इन्हें आदेश दिया जाता है कि वे कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्र०-2 बाँका के आदेशपाल (अनुसेवक) के रिक्त पद पर पत्र निर्गत के एक माह के अन्दर अपना योगदान दे दें।

2. इनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं सम्बन्धित वरीयता सूची के लिए इनकी मान्यता नहीं दी जायेगी ।

3. स्व० जोतिन राम भूतपूर्व अनुसेवक के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण का दायित्व श्री साजूराम पर होगी। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गम्भीर कदाचार माना जायेगा। जिसके विरुद्ध नियमानुसार समुचित कार्रवाई की जायेगी। इसके अलावा उपलब्धियों का एक अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रितों को देने का आदेश सरकार दे सकती है।

4. अगर इनकी नियुक्ति आरक्षित कोटे के रोस्टर बिन्दु पर हुई हो तो उक्त आरक्षित को अग्रणीत कर दिया जायेगा ।

5. नियुक्ति पद पर योगदान करते समय असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र हर हालत में समर्पित करना होगा ।

6. नियुक्त पद पर योगदान करते समय शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण-पत्र, वास्तविक जन्म-तिथि से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र एवं आश्रितों का भरण-पोषण सम्बन्धित प्रमाण-पत्र मूल में सम्बन्धित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जिनकी जाँच के पश्चात् ही योगदान स्वीकार किया जायेगा। इसकी सूचना इस कार्यालय को भी देंगे।

7. योगदान करते समय किसी प्रकार की यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

8. इन्हें शादी-ब्याह के अवसर पर किसी प्रकार का दहेज न लेने न देने के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र योगदान के वक्त प्रस्तुत करना होगा ।

9. उप-सचिव वित्त विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 1964, दिनांक 31 जून 2005 के आलोक में 01 सितम्बर 2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन लागू होगी ।

आदेश से,

लाला रजक,

मुख्य अभियंता, भागलपुर।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 379-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>